

नामांक

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

No. of Questions – 30

No. of Printed Pages – 8

SS-10-Econ. (Supp.)

अर्थशास्त्र (ECONOMICS)

उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा, 2020

समय : 3¼ घण्टे

पूर्णांक : 80

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :

(1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें ।

Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily.

(2) सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं ।

All the questions are compulsory.

(3) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें ।

Write the answer to each question in the given answer-book only.

SS-10-Econ. (Supp.)

[Turn over

- (4) जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें ।

For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity.

- (5) प्रश्न-पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि/अंतर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें ।

If there is any error / difference / contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid.

(6)	खण्ड	प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न	उत्तर की शब्द सीमा
	अ	1-10	1	10 शब्द
	ब	11-18	2	20 शब्द
	स	19-27	4	30-40 शब्द
	द	28-30	6	250-300 शब्द

Section	Q. Nos.	Marks per question	Word limit of answer
A	1-10	1	10 words
B	11-18	2	20 words
C	19-27	4	30-40 words
D	28-30	6	250-300 words

- (7) प्रश्न क्रमांक 28, 29 तथा 30 में आन्तरिक विकल्प हैं ।

Question Nos. 28, 29 and 30 have internal choices.

खण्ड – अ

SECTION – A

1. किन्हीं दो प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम लिखिए ।
Name any two early Indian Economic thinkers. ½ + ½ = 1
2. स्थैतिक विश्लेषण को परिभाषित कीजिए ।
Define Static analysis. 1
3. अवसर लागत से क्या आशय है ?
What is meant by opportunity cost ? 1
4. अल्पकाल से क्या अभिप्राय है ?
What is meant by the short run ? 1
5. कुल आगम का सूत्र दीजिए ।
Give the formula of total revenue. 1
6. शॉपिंग मॉल क्या है ?
What is a shopping mall ? 1
7. दो पूँजीगत वस्तुओं के नाम लिखिए ।
Write the names of two capital goods. ½ + ½ = 1
8. आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का प्रयोग किसने किया ?
Who first used the national income for the calculation of Economic growth ? 1
9. सतत विकास क्या है ?
What is Sustainable Development ? 1
10. राजस्व घाटे से आपका क्या अभिप्राय है ?
What do you mean by the Revenue deficit ? 1

खण्ड – ब

SECTION – B

11. व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर दीजिए ।
Give any two differences between Micro and Macro Economics. 1 + 1 = 2
12. बाज़ार पूर्ति वक्र बनाइए ।
Draw a market supply curve. 2
13. एकाधिकार को परिभाषित कीजिए ।
Define Monopoly. 2
14. स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर कीजिए ।
Differentiate between Stock and Flow. 1 + 1 = 2
15. यदि बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{mp}) ₹ 4,00,000 करोड़ है, अप्रत्यक्ष कर (IT) ₹ 10,000 करोड़ है तथा अनुदान (S) ₹ 5,000 करोड़ है तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC}) की गणना कीजिए ।
If the Net National Product at market price (NNP_{mp}) is ₹ 4,00,000 crores, Indirect tax (IT) is ₹ 10,000 crores and subsidy (S) is ₹ 5,000 crores, then calculate Net National Product at factor cost (NNP_{FC}). 2
16. यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.6 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) का मान ज्ञात कीजिए ।
If Marginal Propensity to Consume (MPC) is 0.6, then find the value of Marginal Propensity to Save (MPS). 2

17. जीरो-बेस बजट से क्या अभिप्राय है ?

What is meant by the zero-base budget ?

2

18. आपकी दृष्टि से नकदविहीन लेन-देन के किन्हीं दो लाभों का वर्णन कीजिए ।

In your view, describe any two benefits of cashless transactions.

1 + 1 = 2

खण्ड – स

SECTION – C

19. माँग के कोई चार निर्धारक तत्त्व बताइए ।

State any four determinants of demand.

1 × 4 = 4

20. निम्नलिखित समंकों से औसत लागत एवं सीमांत लागत की गणना कीजिए :

मात्रा (इकाई)	1	2	3	4
कुल लागत (₹)	60	76	87	92

Calculate Average Cost and Marginal Cost from the following data :

$\frac{1}{2} \times 8 = 4$

Quantity (Units)	1	2	3	4
Total Cost (₹)	60	76	87	92

21. अल्पाधिकार की कोई दो विशेषताएँ बताइए । अल्पाधिकार में माँग वक्र बनाइए ।

State any two features of Oligopoly. Draw the demand curve in Oligopoly. 2 + 2 = 4

22. बाज़ार संतुलन पर माँग में वृद्धि के प्रभाव की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए ।

Discuss the effect of the increase in demand on market equilibrium with the help of a diagram.

2 + 2 = 4

23. राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बीच संबंध की विवेचना कीजिए ।
Describe the relationship between National Income and Economic Welfare. 4
24. मुद्रा पूर्ति के M_1 तथा M_3 माप के लिए सूत्र लिखिए ।
Write the formulas for the measurement of M_1 and M_3 of the money supply. $2 + 2 = 4$
25. एक द्विस्तरीय अर्थव्यवस्था में साम्य आय स्तर का निर्धारण रेखाचित्र की सहायता से कीजिए ।
Determine the equilibrium level of income in a two-sector economy with the help of a diagram. 4
26. माँग आधिक्य और मुद्रा स्फीति की स्थिति में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले कोई चार राजकोषीय उपाय सुझाइए ।
Suggest any four fiscal measures to be adopted by the government in the situation of excess demand and inflation. $1 \times 4 = 4$
27. व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में भेद कीजिए ।
Distinguish between trade balance and balance of payment. $2 + 2 = 4$

खण्ड – द

SECTION – D

28. बजट रेखा एवं तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए । एक रेखाचित्र भी बनाइए ।

अथवा

माँग की कीमत लोच की माप की ज्यामितीय विधि की व्याख्या कीजिए । एक रेखाचित्र भी बनाइए ।

Discuss Consumer's equilibrium with the help of budget line and indifference curve. Draw a diagram also. $4 + 2 = 6$

OR

Discuss the geometric method of measurement of price elasticity of demand. Draw a diagram also.

29. स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए ।

अथवा

परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए ।

Explain the production function of fixed proportions with the help of a diagram.

4 + 2 = 6

OR

Explain the law of variable proportions with the help of a diagram.

30. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले किन्हीं छः कार्यों का वर्णन कीजिए ।

अथवा

व्यापारिक बैंकों के द्वारा किये जाने वाले किन्हीं छः कार्यों और सेवाओं का उल्लेख कीजिए ।

Describe any six functions performed by the Reserve Bank of India.

1 × 6 = 6

OR

Mention any six functions and services performed by the Commercial Banks.

DO NOT WRITE ANYTHING HERE